



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 793) पटना, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना

01 अगस्त 2014

सं0 581—पटना जिलान्तर्गत गायघाट स्थित श्री गौरीशंकर मंदिर पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0— 3124 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक— 822, दिनांक 20/08/2007 द्वारा गठित न्यास समिति का गठन किया गया था। इस कार्यरत न्यास समिति को पर्षदीय पत्रांक—2166, दिनांक 19/03/2013 के आदेश से न्यास समिति के अवसान का आदेश पारित किया गया तथा सहायक पुलिस अधीक्षक, पटना को अधिनियम की धारा—33 के अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। उनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को पर्षदीय ज्ञापांक—151, दिनांक 16/04/2013 द्वारा अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। पुनः पत्रांक—1149, दिनांक 21/09/2013 के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। इसके उपरान्त मा0 अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में पर्षद की ओर से श्री गौरीशंकर मंदिर, गायघाट, पटना की जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि पटना सिटी स्थित इस मंदिर के प्रति स्थानीय आम जनता में काफी श्रद्धा एवं आस्था है। इस मंदिर में बड़े पैमाने पर विवाह—संस्कार का कार्य किया जाता है। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवारी को काफी संख्या में भक्त एवं श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने मंदिर में आते हैं। मंदिर के पिछले भाग में एक बड़ा सभागार है, जिसे विवाह एवं अन्य अवसरों पर होने वाले मांगलिक कार्यों के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा किराया पर दिया जाता है।

इस मंदिर के अधीन कुल चौदह दुकानें हैं। दुकानें पूर्णतः व्यावसायिक हैं। वर्तमान में दुकानों का किराया बाजार दर से काफी कम है। स्थानीय जनता में पूर्व की न्यास समिति के प्रति काफी असंतोष व्याप्त है। जांच में यह भी पाया गया कि कुछ किरायेदारों ने दुकान को दर-किराया पर भी दे रखा है।

जांच के दौरान मंदिर पर उपस्थित आम जनता द्वारा मंदिर के सम्यक् विकास एवं सुचारु प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन के लिए आम सहमति से स्थानीय स्तर के सामाजिक एवं धार्मिक अभिरुचि रखने वाले सज्जनों की एक सूची प्राप्त हुई।

अतः न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री गौरीशंकर मंदिर, गायघाट, पटना सिटी, पटना** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “**श्री गौरीशंकर मंदिर न्यास योजना, गायघाट, पटना सिटी, पटना**” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “**श्री गौरीशंकर मंदिर न्यास समिति, गायघाट, पटना सिटी, पटना**” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्री एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, पर्वद शुल्क, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्वद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्वद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास समिति के अध्यक्ष यदि प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के कारण न्यास समिति की बैठक में यदि भाग नहीं ले पाते हैं, तो उपाध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष को सूचना देते हुए, न्यास से संबंधित सभी कार्यों को संपादित करेंगे।

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री देवकिशन राठी,
पता— मानस पथ, गुजरी बाजार, पटना— 8. | — | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री विश्वनाथ चौधरी
पिता— स्व० सीतराम चौधरी, पता— नालबंद टोली, आलमगंज चौकी, पटना— 7. | — | सचिव |
| 4. श्री प्रभात कुमार
बड़ी पटन देवी, मुख्य द्वार के पास, गुलजारबाग, पटना— 7. | — | सह-सचिव |
| 5. श्री मदनमोहन प्रसाद सिन्हा
पिता— स्व० राम कृष्ण लाल, पता— मठ केदारनाथ रोड, आलमगंज चौकी, पटना— 7. | — | कोषाध्यक्ष |
| 6. श्री शिशिर कुमार
पिता— स्व० बैजनाथ प्रसाद, पता— बड़ी पटनदेवी मंदिर रोड, मीनाबाजार, पटना— 7. | — | सदस्य |
| 7. श्री सूरज प्रसाद
पता— दुर्गाचरण गली, गुलजारबाग, पटना— 7. | — | सदस्य |
| 8. श्री कुमार निरज
पिता— स्व० दामोदर प्रसाद सिन्हा, पता— गौरी शंकर मंदिर के सामने गली, गायघाट, पटना— 7. | — | सदस्य |
| 9. श्री संजय कश्यप
पिता— श्री रामस्वरूप प्रसाद, पता— बकरिया टोला, महाराजगंज, पटना— 7. | — | सदस्य |
| 10. श्री उदय यादव
पिता— स्व० गौरीशंकर प्रसाद यादव, पता— सब्जीमंडी, खाजेकलां, पटना— 8. | — | सदस्य |
| 11. श्री पंकज कुमार
पिता— श्री बट्टी नारायण अशांत, पता— गायघाट दक्षिणी गली, गुलजारबाग, पटना— 7. | — | सदस्य |

13. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाशन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 793-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>